



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092024-256950  
CG-DL-E-06092024-256950

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 691]  
No. 691]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2024/भाद्र 14, 1946  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2024/BHADRA 14, 1946

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024

संदर्भ: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (1013).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

## अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 436 (भाग 1/अनुभाग 1) : 2024 कोयला और कोक के नमूने लेने की पद्धतियाँ भाग 1 कोयले का नमूनाकरण अनुभाग 1 मैनुअल नमूनाकरण (दूसरा पुनरीक्षण)	21 अगस्त 2024	आई एस 436 (भाग 1/अनुभाग 1) - 1964 कोयला और कोक के नमूने लेने की पद्धतियाँ भाग 1 कोयले का नमूनाकरण अनुभाग 1 मैनुअल नमूनाकरण (संशोधित)	21 फरवरी 2025
2	आई एस 2508 : 2024 पॉलीइथिलीन फिल्म और शीट — विशिष्टि (चौथा पुनरीक्षण)	21 अगस्त 2024	आई एस 2508 : 2016 पॉलीएथिलीन फिल्म और शीट — विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण) आई एस 10889 : 2004 उच्च घनत्व की पालीइथाइलीन फिल्में (पहला पुनरीक्षण)	21 फरवरी 2025
3	आई एस 4117 : 2024 अल्कोहल डिनाट्रुरेंट्स — विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	21 अगस्त 2024	आई एस 4117 : 2008 एलकोहल विगुणकर्मक — विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	21 फरवरी 2025
4	आई एस 5821 : 2024 रबड़ की गर्म पानी की होज — विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	21 अगस्त 2024	आई एस 5821- 1986 रबड़ की गर्म-पानी की होज के लिए विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	21 फरवरी 2025
5	आई एस 14611 : 2024 बहुस्तरीय क्रॉस लेमिनेटेड चद्दर/तिरपाल/कवर/कृषि फिल्मस — विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	21 अगस्त 2024	आई एस 14611 : 2016 बहुपरत वाले क्रॉस लेमिनेटेड चद्दर/टरपुलिन/कवर/कृषि फिल्मस — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	21 फरवरी 2025

6	आई एस 15125 : 2024 आई एस ओ 10715 : 2022 प्राकृतिक गैस — गैस नमूनाकरण (पहला पुनरीक्षण)	21 अगस्त 2024	आई एस 15125 : 2002 आई एस ओ 10715 : 1997 प्राकृतिक गैस — नमूने लेने के मार्गदर्शी सिद्धांत	21 फरवरी 2025
7	आई एस 18690 : 2024 टार और बिटुमिनस सामग्री — संतृप्त, नैफ्थीन एरोमेटिक्स, ध्रुवीय एरोमेटिक्स और एस्फाल्टीन का निर्धारण — परीक्षण पद्धतियाँ	21 अगस्त 2024	लागू नहीं	लागू नहीं

पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./458/2024-25]

## BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2024

**Ref: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (1013).**—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

### SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No., Year & Title of the Indian Standards to be withdrawn, if any	Date of withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 436 (Part 1/Sec 1) : 2024 Methods for Sampling of Coal and Coke Part 1 Sampling of Coal Section 1 Manual Sampling (Second Revision)	21 August 2024	IS 436 (Part 1/Sec 1) - 1964 Methods for Sampling of Coal and Coke Part 1 Sampling of Coal Section 1 Manual Sampling (Revised)	21 February 2025
2	IS 2508 : 2024 Polyethylene Films and Sheets — Specification (Fourth Revision)	21 August 2024	IS 2508 : 2016 Polyethylene Films and Sheets — Specification (Third Revision)	21 February 2025

			IS 10889 : 2004 High Density Polyethylene Films (First Revision)	
3	IS 4117 : 2024 Alcohol Denaturants — Specification (Third Revision)	21 August 2024	IS 4117 : 2008 Alcohol Denaturants — Specification (Second Revision)	21 February 2025
4	IS 5821 : 2024 Hot Water Hose of Rubber — Specification (Third Revision)	21 August 2024	IS 5821 - 1986 Specification for Hot-Water Hose of Rubber (Second Revision)	21 February 2025
5	IS 14611 : 2024 Multilayered Cross Laminated Sheets/Tarpaulins/Covers/Agricultural Films — Specification (Second Revision)	21 August 2024	IS 14611 : 2016 Multilayered Cross Laminated Sheets/Tarpaulins/Covers/Agricultural Films — Specification (First Revision)	21 February 2025
6	IS 15125 : 2024 ISO 10715 : 2022 Natural Gas — Gas Sampling (First Revision)	21 August 2024	IS 15125 : 2002 ISO 10715 : 1997 Natural Gas — Sampling Guidelines	21 February 2025
7	IS 18690 : 2024 Tar and Bituminous Materials — Determination of Saturates, Naphthene Aromatics, Polar Aromatics and Asphaltenes — Methods of Test	21 August 2024	NA	NA

P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM)  
[ADVT.-III/4/Exty./458/2024-25]